

UTSL/NSE/2025-26

Date: 14th November, 2025

To,

**The Secretary-Listing Department
The National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai – 400051**

Ref: Scrip Code/Symbol: UNIINFO

**Sub: Submission of Newspaper Clipping for the extract of Unaudited Financial Results
for the Quarter/Half Year ended 30th September, 2025.**

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 and 47 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Company has published extract of Unaudited Financial Results for the quarter/half year ended 30th September, 2025. We herewith enclose the Newspaper Advertisement published on 14th November, 2025 in Business Standard English Newspaper and Business Standard Hindi Newspaper.

You are requested to please take on aforesaid submission for your records and reference.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Uniinfo Telecom Services Limited

Pushpendra Patel


Company Secretary & Compliance Officer

Encl: Clippings of Newspaper Advertisement

PNB Housing Finance Ltd.		APPENDIX - IV-A: E-AUCTION-PUBLIC SALE NOTICE OF IMMOVABLE PROPERTY/IES									
E-AUCTION-SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE ASSETS UNDER THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND RECOVERY OF SECURITY INTERESTS BY PNBHS FINANCE LIMITED UNDER PROVISIONS OF THE SECURED CREDITORS ACT, 2002											
Reg. Office: 9 th Floor, Antiriksh Bhawan, 22 Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110011 Phone: 011-23357471, 23307472, 23705454; Web: www.pnbhousing.com E-mail: e-auction@pnbhousing.com											
B. O. INDORE : Ground Floor, Plot No.- 02, Greater Vashiail Colloony, Gopur Square, Indore-462009, Madhya Pradesh											
Notice is hereby given to the public in general and in particular to the borrower(s) & guarantor(s) indicated in Column no-A that the below described immovable property (ies) described in Column no-D mortgaged/charged to the Secured Creditor, the Plaintiff herein, viz. M/S PNB Housing Finance Limited , has been put up for sale under this Public Sale Notice. The basis of this Public Sale Notice is as follows: Column no-C by the authorized officer of M/S PNB Housing Finance Limited Secured Creditor, the Plaintiff herein, viz. M/S PNB Housing Finance Limited is its BASIS. The said mortgagor(s)/borrower(s), the Defendant(s) herein, viz. M/S PNB Housing Finance Limited is its BASIS. The said mortgagor(s)/borrower(s)/Legal heirs/Legal Representative, (whether Known or Unknown), executor(s), administrator(s), successors(s), assignee(s) of the respective borrowers/mortgagor(s) (and/or their legal heirs/legal representatives) who are liable to pay the dues of the said mortgage loan(s) upto the date of the Public Sale Notice dated 16-02-2023 amended as on date, For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in M/S PNB Housing Finance Limited secured creditor's website i.e. www.pnbhousing.com .											
Lgn No. Name of the Borrower/Secured Creditor/ Legal Heirs(A)	Demand Exceeding Amount (B)	Nature of Property (C)	Description of the Properties/Mortgage (D)	Reserve Price (Rp) (E)	FMD (F)	End Date of Last Bid (G)	Bid Increm. Rate (H)	Inspection Time (I)	Date of Auction & Time (J)	Name of Buyer (K)	Know your Customer (L)
NHL/IND017/395618 BAKASH NAGAR /MALTI NAGAR R.O.ASH/ INDORE	Rs. 11155500.35	Physical Possession	Flat No 102 Sagat Saran 39 Jail Road Ga No 12 Indore, Indore-462009, Madhya Pradesh, India, (900 Sq.ft Built Up)	1521000	152100	Rs. 28.11.2023	10000	21-11-2023 04:00pm	29-11-2023 03:00PM	NOT KNOWN	NO
<p>*Together with the further interest @18% p.a. as applicable, incidental expenses, cost, charges etc. incurred upto the date of payment and/or realization thereof. ** To the best knowledge and information of the authorized officer of PNB Housing Finance Limited, there are no other encumbrances/ claims in respect of above mentioned immovable/secured assets except what is disclosed in the Column No- A. Further, the said immovable/secured assets are free from all other encumbrances/claims in respect of the same.</p> <p>To ascertain the veracity of the mentioned encumbrances. (1) As on date, there is no order restraining and/or court injunction PNBHF, the authorized officer of PNBHF, from selling, alienating and/or disposing of the said immovable properties. (2) There is no pending litigation involving the said immovable properties. (3) There is no pending application for attachment and/or seizure of the said immovable properties. (4) There is no pending application for inspection of the pleading in the proceedings/orders passed etc. if any, stated in column no-K. Including but not limited to the title of the documents of the title pertaining thereto available with the PNBHF, and satisfy the requirements of the said application for inspection. (5) There is no pending application for appointment of receiver of the said immovable properties. (6) There is no pending application for garnishee (3). Please note that in terms of Rule 9(3) of the Security Interest Enforcement Rules, 2002, the bidder(s) the purchaser is/are bound to deposit 25% of the amount of sale price in Form (3) payable on the same day or not later than next working day. The sale may be confirmed in favour of (bidder/s) only after receipt of 25% of the sale price by the secured creditor in accordance with Rule 9(2) of the Security Interest Enforcement Rules, 2002. The secured creditor reserves the right to accept or reject the bid/bids at its sole discretion without assigning any reason. The secured creditor shall confirm letter and in default of such deposit, the authorized officer shall forfeit the part payment of sale consideration amount within 15 days from the date of expiry of mandatory period of 15 days mentioned in the sale contract. The secured creditor reserves the right to conduct the sale through electronic mode. The secured creditor reserves the right to conduct the sale through any assistance related to conducting sale through an e-auction having its corporate office at Plot No. 68, 3rd Floor, Sector 44, Gurugram, Haryana 122003 Website -www.bankexchanges.com. For any assistance related to inspection of the property or obtaining the Bid Documents and for any other query or for registration, you have to co-ordinate with VIVEK LODHA. Flat Fee Rs. - 1800 120 880,- E-Mail: e-auction@pnbhousing.com or Telephoned Person at PNBHF-L or refer to www.pnbhousing.com.</p>											
PLACE : INDORE		DATE : 14-11-2023						Sd/-AUTHORIZED OFFICER, PNB HOUSING FINANCE LIMITED			

 JM FINANCIAL HOME LOANS	JM Financial Home Loans Limited Registered Office: 3rd Floor, Swasthik IT Park, Plot No. 68E, off Datta Pada Road, Opp. Tata Steel, Borivali (E), Mumbai - 400 066
<u>POSSESSION NOTICE</u>	
Under section 13(4) of securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest act, 2002 and rule 8(1) of the security interest (enforcement) rule 2002, (appendix iv) Whereas the undersigned being the authorised officer of JM Financial Home Loans Limited, (hereinafter referred as JM(FHLL)) under the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(2) in pursuance of rule 3 of the security interest (enforcement) rules, 2002 issued a Demand Notice to the borrower(s)/co-borrower(s)/guarantor(s) mentioned herein below to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower(s)/co-borrower(s)/guarantor(s) having failed to repay the demanded amount, notice is hereby given to the borrower(s)/co-borrower(s)/guarantor(s) and the public in general that the undersigned on behalf of JM(FHLL) has taken possession of the property described hereinbelow in exercise of powers conferred on him under section 13(4) of the said act read with rule 8(1) of the said rules. The borrower(s)/co-borrower(s)/guarantor(s) in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the below mentioned property and any dealings with the said property will be subject to the first charge of the JM(FHLL) for the amount as mentioned herein below with future interest thereon.	

MANGLAM GLOBAL CORPORATIONS LIMITED (Formerly known as KSHITIJ INVESTMENTS LIMITED) Registered Office: Mangalwara Bazaar, Next to Agrawal Readymade Stores, Piparia, Hoshangabad - 461775, Madhya Pradesh, India Mobile No. : +91-9340315471 e-mail: ksh.inv.ltd@gmail.com Website: https://www.kiltid.in CIN-L10613MH1979PLC021315							
EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2025							(Rs. in Thousand)
Sr. No.	PARTICULARS	Quarter ended 30-09-2025	Quarter ended 30-06-2025	Quarter ended 30-09-2024	Year to Date figures for current period ended 30-09-2025	Year to Date figures for previous year ended 30-09-2024	Year ended 31-03-2025
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from operation (net)	21,526.57	26,894.58	191.23	48,421.15	307.62	39,220.99
2	Net Profit /(Loss) after taxes, minority interest and share of profit/loss of associates	-1,728.65	218.91	-1,169.70	-1,509.74	-1,707.75	431
3	Total Comprehensive Income	-1,728.65	218.91	-1,169.70	-1,509.74	-1,707.75	431
4	Paid up Share Capital (Face Value of Rs. 10/- each fully paid up)	31,524.00	31,524.00	31,524.00	31,524.00	31,524.00	31,524.00
5	Earning Per Share (before extraordinary items) (of Rs.10/- each) Basic and Diluted	-0.548	0.069	-0.371	-0.479	-0.542	0.137
6	Earning Per Share (before extraordinary items) (of Rs.10/- each) Basic and Diluted	-0.548	0.069	-0.371	-0.479	-0.542	0.137



**HINDJA
HOUSING FINANCE**

HINDJA HOUSING FINANCE LIMITED
 Corporate Office: 167-169, 2nd Floor, Near Little Mount Metro Station, Sapet, Chennai - 600015
 Branch Office - 295, 3rd Floor, Gulati Tower, Jabbarpur Hospital Road, Nagpur Town, Jabalpur, Madhya Pradesh, 482001
 Email - auction@hindjahoousingfinance.com

Date of Inspection of Property
 27.11.2025 - 27.11.2025 between 11 AM to 5 PM
 EMD Last date
 29.11.2025 between 10 AM to 5 PM
 Date / Time of Auction
 01.12.2025 between 11 AM to 1 PM.

PUBLIC NOTICE FOR E-AUCTION CUM SALE (APPENDIX - IV A) (RULE 8(6))

Sale of Immovable property mortgaged to Hindja Housing Finance Ltd. Corporate Office at Hindja Housing Finance Limited, 167-169, 2nd Floor, Anna Salai, Saidapet, Chennai, 600015 and Branch Office at - **Hindja Housing Finance Limited- 101-B, Business Park, WRR, Near Mangal City, Vijay Nagar Indore - 450210.** Under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (hereinafter "Act"). Whereas the Authorized Officer of **Pankaj Joshi** had taken the possession of the following properties pursuant to the notice issued U/S 13(2) of the Act in the following loan accounts/prospect nos. with a right to sell the same on "AS IS WHERE IS BASIS & AS IS WHAT IS BASIS" for realization of dues. The Sale will be under the undersigned through e-auction platform provided at the website: www.bankerauctions.com

Borrower (s) / Co-Borrower (s) / Guarantor (s)	1. Demand Notice Date 2. Loan Account No. 3. Amount due on as date 4. Bid Increase Amount	Description of the Immovable property/ Secured Asset	Date of Possession Reserved Price (In Rs.) Earnest Money Deposit (EMD)
Mr. Kamlesh Thakur Mrs. Sandhya Thakur Mr. Sonu Gound	21. 29/01/2024 MP/JBR/NRSP/A000000053 Rs. 25,65,700/- Rs. 10,000/-	All that piece & parcel of Converted land at Mauja Imaliya, Bearing Khalsa No. 173/8, NB No. 17, PH. No. 13, Block Kareli, Ward No. 04, Hanuman ward, Unit No. 2, Nagar Palika Kareli, Tehsil Kareli, District Narsinghpur, (MP) Total Admeasuring area 30'50"-1500 Sqft. Boundaries as per deed :- East : Cachha Rasta, West : Nali, North : Land of Seller, South : Land of Seller	29/01/2024 Rs. 3055500/- Rs. 305550/-
Mr. ROSHAN SAVITRI HOTEL M rs. PREM LATA HOTEL	1. 01-01-2025 2. MP/JBR/JBLP/A000000648 3. Rs. 12,62,153/- Rs. 10,00,000/-	Mouja Bichudh No. 85 Patwari Halka No. 14 Bejapur Rmm Imaliya Tehsil Kundam District Jabalpur Khalsa No. 90 Rakwa 1.24 Hectare Bhojmoji 3.96 Hec. , Sadar Bazar Cannet Road Jabalpur MP Urban , Madhya Pradesh , India - 482001 Admeasuring Area 594 Sq.ft. Four Boundaries - East - Road, West - Plot No. 09, North - Plot No. 13, South - Plot No. 11	01/01/2025 Rs. 1242000/- Rs. 124200/-
Mr. SAHIL KUMAR Mrs. SAVITA SAVITA	1. 01-01-2025 2. MP/JBR/JBLP/A000000607 3. Rs. 16,91,797/- Rs. 10,00,000/-	Mauja Bilpura Phn 53 Rmm Bilpura Tehsil Ranjhi Jila Jabalpur Khalsa No 593/1/1 Plot No. 1, Ranjhi, Urban , Jabalpur, Madhya Pradesh , India - 482001 Admeasuring Area 1000 Sqft. Four Boundaries - East - House No. 3, West - Road, North - House No. 2, South - Land of seller	01/01/2025 Rs. 1927440/- Rs. 192744/-
Mr. MAREEDAS KORI Mrs. KOTAMMA	1. Issuance Date - 21-11-2024 2. MP/JBR/JBLP/A000000714 3. Rs. 12,44,027/- Rs. 10,00,000/-	All That Piece & Parcel Of Land Bearing Mauja Suhagi No 426 Phn 17 Tehsil And District Jabalpur Land Khalsa No 9/14 Plot No 15 Suhagi Jabalpur, Urban, Sihora , Madhya Pradesh , India - 483225, Admeasuring Area - 600 Sqft. Bounded As - East : House Of Vijay Kanoojaya & Rakesh Yadav, West : Land Of Rakesh Yadav, North - Plot Of Patel Ji, South : Road	21/11/2024 Rs. 1287900/- Rs. 128790/-
Mr. MANISH KUMAR SONI Mrs. ANITA SONI	05-08-2024 MP/JBR/JBLP/A000000548 Rs. 19,06,967/- Rs. 10,00,000/-	Survey No. 37/16, Mouja Suhagi, PH.No. 20/17, Sant Ravidas Ward, Ward No. 77, Tehsil Adharti, District Jabalpur (MP), Total Area - 800 Sq.Ft. Or 74.34 Sq.Mt. Boundaries - East: Sweeper House, West: Side Road, North: House Of Kashyap Ji, South: House Of Biharijal Ji	05/02/2025 Rs. 1911600/- Rs. 191160/-
MR. HARISH KUMAR MEHRA Mrs. ANJU MEHRA	26-12-2023 MP/JBR/GDWR/A000000078 Rs. 18,90,574/- Rs. 10,00,000/-	All that piece 86 parcel of Converted land at Mauja Basuriya, bearing Khalsa No. 525/6/1, PH. No. 49, N.B. 303, RNN Babel Bank, Block Chichli, Tehsil Gadawara, District Narsinghpur, (MP) Total Admeasuring area 2368 Sqft Or 220.074 Sq.Mt. Boundaries as per House of Kamlesh Kabar West : Basuriya to Lavasur Road North : Basuriya Cement Road South : Plot of Sachin Raj	24/03/2024 Rs. 1593000/- Rs. 159300/-
Mr. PRASHANT GIRI GOSWAMI Mr. Neeta Goswami	05.02.2024 MP/JBR/CDWR/A000000015 Rs. 19,95,107 Rs. 10,00,000/-	All that piece & Parcel of Converted land bearing Khalsa No.-54/2/1, Area 1200 Sq.ft Situated at Mouza- Sarra Nagar Nigam Ward No. 35 Kutebura Ward, B.No-538, PH.No.-14, R1 Circle - Chhindwara-02 Tehsil-Chhindwara Dist. Chhindwara Boundaries as - East - Land of Seller, West - Plot of Jyoti Dongre, North- Farm of Kapil Chawitkar, South - 25 feet Road	03/05/2024 Rs. 2043000/- Rs. 204300/-
Mrs. Neelam Sahu Mrs. Neeraj Sahu	11-09-2023 MP/JBR/JBLP/A000000296 Rs. 39,67,905/-	All that piece & parcel of Converted land bearing Jda Scheme no. 11, Face-2 Colony, Plot No. E-35, Plot area 36 sqmt. Tahsil & Distt Jabalpur. Demarcation of the Property As per Lease Deed of - Shri Neeraj Sahu S/o Shri Vishnu Sahu, East : Plot No. E-42, West : Road, North : Plot No. E-36, South : Plot No. E-34	11/01/2024 Rs. 3780000/- Rs. 378000/-
Mr. Sunil Kumar Nameo Mr. Dulichand Nameo Mrs. Sudha Nameo Mr. Sandeep Nameo	23-04-2024 MP/JBR/NRSP/A000000140 CO/CP/CPCC/A000000180 Rs. 13,72,136/-	Survey No.329/14, Mouza Kandeli, PH.No.17/41, N.B.No.36, W No. 08, Pathak Ward, Nagar Palika Narsinghpur, Tehsil & District Narsinghpur, (MP) Total Area - 900 Sq.Ft. Or 83.61 Sq.Mt. Boundaries - East : Kulia, West - Road, North - Lakhnan Vishwakarma, South - House Of Thakur	24/03/2024 Rs. 1555200/- Rs. 155520/-

Terms & Conditions - 1. Last Date of Submission of DD of Earnest Money Deposit along with KYC, Tender Form and Accepted terms and conditions (Tender Documents) is **29-11-2025 within 3:00 PM** at the Branch Office address mentioned herein above or uploaded on <https://www.auctiontiger.in>. Tenders documents received beyond last date will be considered as invalid tender (and shall consequently be rejected). No interest shall be paid on the EMD. **2.** Date of Opening of the Bid/Offer (Auction Date) for Property is **01-12-2025 on https://www.auctiontiger.in at 03:00 PM to 05:00 PM.** 3. **HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED (HHFL)** is not responsible for any liabilities whatsoever pending upon the property as mentioned above. The Property shall be auctioned on **"As is Where is Basis" "As is what is Basis" and "Whatever is There is Basis"**. 4. The Demand Draft Should be made in favor of **Hinduja Housing Finance Limited**. **5. Auction/Bidding** shall be only through "Online Electronic Bidding through the website <https://www.auctiontiger.in>. Bidders are advised to go through the website for detailed terms before taking part in the auction sale proceedings. 6. The intending bidders should register their names at portal **M/s e-Procurement Technologies Pvt. Ltd. (Auction Tiger)** through the link <https://sarfaesi.auctiontiger.net>. **Listing Portal : www.auctiontiger.in** and get their User ID and password free of cost. Prospective bidder may avail online training on E-auction from the service provider **M/s e-Procurement Technologies Pvt. Ltd. (Auction Tiger)** through the website: <https://sarfaesi.auctiontiger.net>. **7.** For further details contact Authorized Officer of Hinduja Housing Finance Limited. **Mr. Vaidhyan Shrivastava, Mo. No. 7987596803, Mr. Rajesh Chokhtotiya Mo. No. 84355 71111, Gaurav Naik -75877 48188** or the service provider **M/s e-Procurement Technologies Pvt. Ltd. (Auction Tiger)** Head Office : **8-705, Wal Street II, Opp. Orient Club, Near Gujarat College, Ellis Bridge, Ahmedabad - 380 006, Gujarat (India)** Support Help Desk Numbers : **9265562819 / 9265562821, Email – support@auctiontiger.net, rampasat@auctiontiger.net, Mr. Ram Sharma, Mob. +91 8000023297. Email : support@auctiontiger.net** As on date, there is no order restraining and/or court injunction HHFL the authorized officer of HHFL from selling alienating and/or disposing of the above immovable properties / secured assets **8.** For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link website <https://www.auctiontiger.in>

Date-14.11.2025 **Authorised Officer**

SALE OF IMMOVABLE PROPERTY / ESTATE AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND SECURITIES INTEREST (SPP)					
PAN: A-23387474, 23357472, 23705444 Web: www.pnbhousing.com Indo-452009, Madhya Pradesh Below described immovable property (ies) described in Column no-D (Column C-o) by the authorized Officer of M/s PNB Housing Finance Ltd. as per details mentioned below:- (Applicant/s), (successor/s), assignee(s) of the respective borrowers/ mortgagor/s are required to submit all documents as mentioned in the Enforcement Rules, 2002 amended as on date. For detailed terms refer to pnbhousing.com.					
FMD Sl.No.	Last Date of Bid/ Submission (C-d)	Bid/ Interest Rate (%) (R)	Inspection Date (C-e)	Date of Auction & Time (J) (J)	Know Location (if any) (K)
RSL100	28.11. 2025	R 10000	21-11-2025 12:00pm to 04:00pm	29-11-2025 12:00PM 03:00PM	NOT KNOWN

of payment and/or realization thereof. ** To the best knowledge and above mentioned immovable/secured assets except what is disclosed herein, the prospective purchaser(s)/ bidders are required to independently verify the authenticity of the documents of title pertaining thereto available with the seller and sign the terms and conditions of the auction along with sale bid. The amount payable to the bank shall be 25% of the amount of sale price. (Inclusive of cost of 25% of the sale price by the secured creditor in accordance with the provisions of Sec 55(2)(ii) of the Transfer of Property Act, 1882). The balance purchase money will have to be paid by the purchaser within 15 days from the date of completion of the auction. Within 15 days from the date of expiry of mandatory period of 15 days after the completion of the Private Limited would be liable to pay the balance purchase money to the bank. For further details visit www.bankauctions.com. For any assistance related to the same contact **020-23387474, 23357472, 23705444** or **020-23387474, 23357472, 23705444** Website - www.bankauctions.com For any assistance related to bid submission with VIVEK LODHA Toll Free No. - 1800 120 9800, E-Mail: vivek.lodha@pnbfhl.co.in

 EASY HOME FINANCE LIMITED	
Reg. Office: 302, 3rd Floor, Suvam Chambers, Dattatraya Road & 7 V.P. Road [EXTN.], Santacruz West, Mumbai - 400054. CIN: U74999MH2017PLC297819	
Website: www.easlyhfc.in Email: contact@easlyhomefinance.in Toll Free: 1800 22 3279 Tel: +91 22 3550 3442 Tel: +91 22 3521 0487	
APPENDIX IV RULE 8 (1) POSSESSION NOTICE (For Immovable Property)	
WHEREAS The undersigned being the Authorized Officer of the Easy Home Finance Limited, under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of the powers conferred under section 13(2) (read with Rule 3 of the security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice dated August 13, 2025 called upon the Mr. Murari Lal Dhakad, Mr. Ankit Dhakad, Mrs. Ram Shri Bai and Mr. Ankit Dhakad (Borrower/Co-Borrower/ Mortgagor) to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 6,26,373/- (Rupees Six Lakh Twenty-Six Thousand Six Hundred Thirty-Seven only) along with further overdue charges from 13(2) till date of payment and/or realization in full within 60 days from the date of the said notice. The borrower/co-borrower/mortgagor having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower/co-borrower/mortgagor and the public in general that the undersigned has taken symbolic possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under section 13(4) of the Act read with Rule 6 & 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. The borrower/co-borrower/mortgagor in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property shall be subject to the charge of the Easy Home Finance for an amount of Rs. 6,26,373/- (Rupees Six Lakh Twenty-Six Thousand Six Hundred Thirty-Seven only) along with further overdue, interest etc. charges from 13(2) till date of payment and/or realization in full within 60 days from the date of the said notice. The borrower's attention is invited to the provision of sub section (8) of Section 13 of the SARFAESI Act, 2002 in respect of time available, to redeem the secured assets.	
SCHEDULE OF THE PROPERTY	
All that part and parcel of the property bearing Property Address: School No. 14, P.H. No. 57, Ward No. 28, Khasra No. 373, Gram Dhanankhedi, Near Gout, Shool Dhanankhedi, Bamori, Guna, Madhya Pradesh, India, 473105. Description Of Boundaries: as per Sale Deed: East: House Of Ramramb Dhakad, West: House Of Deepak Dhakad, North: Road, South: House Of Ramramb Dhakad, as per Site : East: House Of Ramramb Dhakad, West: House Of Deepak Dhakad, North: Road, South: House Of Ramramb Dhakad Including constructed building and fixture, with all rights.	
Date: November 12, 2025 Place: Madhya Pradesh	Sd/- Authorized Officer, EASY HOME FINANCE LIMITED

**Market wisdom,
straight from the
sharpest minds
in the game.**

Cut through the noise every day with expert columns that decode trends before they unfold, only in Business Standard.

To book your copy
SMS **reachbs** to
57575 or email
order@bsmail.in



BAJAJ FINSERV

BAJAJ HOUSING FINANCE LIMITED

Corporate office: Cerebrum IT Park B2 Building 5th Floor, Kalyani Nagar, Pune, Maharashtra 411014
Branch Offices: 2ND Floor, Kartar Tower, Above Reliance Fresh Opp Rani Kamplaji Railway Station, Bhopal – 462001

Demand Notice Under Section 13 (2) of Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

Undersigned being the Authorized officer of M/s Bajaj Housing Finance Limited, hereby gives the following notice to the Borrower(s)/Co-Borrower(s) who have failed to discharge their liability i.e. defaulted in the repayment of principal as well as the interest and other charges accrued there-on for Home Loan(s)/Loan(s) against Property advanced by them by Bajaj Housing Finance Limited, and as a consequence the loan(s) has become Non Performing Assets. Accordingly, notices were issued to them under Section 13 (2) of Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and rules there-to, on their last known addresses, however the same have been returned un-served/undelivered, as such the Borrower(s)/Co-Borrower(s) are hereby intimated/informed by way of this publication notice to clear their outstanding dues under the loan facilities availed by them from time to time.

Loan Account No./Name of the Borrower(s)/Co-Borrower(s)/ Guarantor(s) & Addresses	Address of the Secured/ Mortgaged Immovable Asset/ Property to be enforced	Demand Notice Date & Amount
Branch: BHOPAL LAN No. H430HLT1116570 and H430HLD1113186 1. Unnikanathan PT Nair (Borrower) 2. Anu Mathew (Co-Borrower) Both At H No E-9/383, Trilanga Huzur, Bhopal, Madhya Pradesh-462039	All that Piece And Parcel Of The Non-agricultural Property Described As: Flat No.01, Upper Ground Floor, Tower - Viii, Sagor Lake View Homes, Kharsa No.14/13, 182/14/3 & 14/12/5, Village Hataikahda, Ward No 64, Patwari Hanika No.20, Vikas Kheda Division, Teshil Huzar, Dist. Bhopal, Madhya Pradesh. Above 2022 (the Area Of Flat Is 47 Sq. Mtr. The Flat Is Incomplete And With Venkates's Satisfaction In All Respect. The Flat Is Situated Within The Limits Of Bhopal Municipal Corporation, Bhopal) East : Duct & Staircase West : Flat No. Ug-02 North : Corridor & Flat No. Ug-05 South : Open	31 Oct 2025 & Rs. 34,20,566/- (Rupees Thirty four Lakh twenty Thousand five Hundred Sixty Six Only)

This step is being taken for substituted service of notice. The above Borrowers and/or Co-Borrowers Guarantors are advised to make the payments of outstanding along with future interest within 60 days from the date of publication of this notice failing which (without prejudice to any other right remedy available with Bajaj Housing Finance Limited) further steps for taking possession of the Secured Assets/ mortgaged property will be initiated as per the provisions of Sec. 13(4) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002. The parties named above are also advised not to alienate, create third party interest in the above mentioned properties, in which Bajaj Housing Finance Limited has the charge.

Place: Bhopal Date: 14.11.2025

Sd/- Authorized Officer, Bajaj Housing Finance Limited

Prestige
Add Prestige to your life

PRESTIGE ESTATES PROJECTS LIMITED
CIN: L07010KA1997PLC022322
Regd. Office: Prestige Falcon Tower, No.19, Brunton Road, Bangalore-560 025
Email: investors@prestigeconstructions.com Website: www.prestigeconstructions.com
Phone - + 91 825591080

**UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS
FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2025**

The unaudited Standalone and Consolidated Financial Results of Prestige Estates Projects Limited ("the Company") along with the Limited Review Reports of the Statutory Auditors of the Company for the quarter and half year ended September 30, 2025 have been reviewed by the Audit Committee and approved by Board of Directors of the Company at their Meeting held on November 12, 2025, in terms of Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The aforementioned financial results along with the Limited Review Reports of the Statutory Auditors thereon are available on the website of BSE Limited (BSE) (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (NSE) (www.nseindia.com) and on the Company's website at <https://prestigecorporatesite.s3.ap-south-1.amazonaws.com/investors/financial-performance/ly-2025-2026/Q2-Results-25-26.pdf> The same can also be accessed by scanning the QR Code provided below:

By order of the Board of
Prestige Estates Projects Limited
Sd/-
Irfan Razack
Chairman and Managing Director
DIN: 00209022

Place: Bengaluru
Date: Bengaluru 2025

[illegible]

ITL Industries Limited

Regd. Office : 111, Sector-B, Sanwer Road, Industrial Area, Indore-452015 (M.P.)

Phone No. : 0731-7104400 Email: info@itl.co.in website: www.itl.co.in. CIN - L28939MP1989PLC005037

Extract of Statement of Consolidated Un-audited Financial Results for the Quarter/ Half Year ended on 30.09.2025

(Rupees in Lakhs except EPS)

S. No.	Particulars	Quarter Ended			Half Year Ended		Year Ended
		30.09.2025 (Un-audited)	30.06.2025 (Un-audited)	30.09.2024 (Un-audited)	30.09.2025 (Un-audited)	30.09.2024 (Un-audited)	31.03.2025 (Audited)
1	Total Income from operation	4861.03	4141.11	4367.26	9002.13	8463.94	18344.41
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	334.33	303.30	287.02	637.63	587.21	1318.62
3	Net Profit/(Loss) for period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	334.33	303.30	287.02	637.63	587.21	1318.62
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	254.53	228.60	203.54	483.13	434.67	927.99
5	The Comprehensive Income for the period (Comprising profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive income (after tax))	12.31	29.58	-1.15	41.89	26.19	-37.82
6	Paid up Equity Share Capital	320.43	320.43	320.43	320.43	320.43	320.43
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	8091.64	7837.11	7151.48	8091.64	7151.48	7608.51
8	Earning per share (before extraordinary item) (of Rs 10/- Each) (Not annualised)						
	a) Basic (₹)	7.94	7.13	6.35	15.08	13.57	28.96
	b) Diluted (₹)	7.94	7.13	6.35	15.08	13.57	28.96
9	Earning per share (after extraordinary item) (of Rs 10/- Each) (Not annualised)						
	a) Basic (₹)	7.94	7.13	6.35	15.08	13.57	28.96
	b) Diluted (₹)	7.94	7.13	6.35	15.08	13.57	28.96

Key Standalone Information

S. No.	Particulars	Quarter Ended			Half Year Ended		Year Ended
		30.09.2025 (Un-audited)	30.06.2025 (Un-audited)	30.09.2024 (Un-audited)	30.09.2025 (Un-audited)	30.09.2024 (Un-audited)	31.03.2025 (Audited)
1	Total Income from operation	4861.02	4141.11	4366.43	9002.13	8454.89	18338.07
2	Profit Before Tax	331.24	303.93	277.03	635.17	568.65	1281.54
3	Profit After Tax	252.91	228.93	198.30	481.84	424.92	911.18

Note:- The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Half Yearly Financial Result filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and other Disclosures Requirements) Regulation, 2015. The full format of the Quarterly/Half Yearly Financial Results are available on the Stock Exchange website viz. www.bseindia.com. The same is also available on the Company website viz. www.itl.co.in.

Place : Indore
Date :- 13/11/2025

For ITL Industries Limited
Rajendra Jain
Managing Director DIN - 00256515

